SHTRABANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTRA FANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAH SHTRABANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTRA BANK SHTRABANK OF MAHARASHTRअहस्तांतरणीय NOTATRANSFERABLEA नियमानुसानु सत्रोता पर कर कटोती के अधीन Subject to TDS as pec Rules a bank ASHTRA BANK OF MAHARASHTRA PANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAHARASHTR SHTRABANK OF MAI SHTRABANK OF MAHARASHTRA BANK SHTRABANK OF MAHARASTER MANCHAR SHTRABAखाताकः MAHAPAS 0042179-Pub-Ind >10Y TRABANC NO MAHARASHTRA ANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAH K OF MAHARASHTRA BANK OF MAH SHTRAFA/C CNO:60102691290 / TDS will be deducted as perorules ASHTRA BANK OF MAH SHTRAFRECOIPTH NO SH42179 | Unless Form 15H/15G/PAN No is submitted BANK OF MAH MAHARASHTRA BANK OF MAH SHTRABANK OF MAHARASHTE के अनुसार / A201/07/2012 नियत दिनांक / 200 Date / 2022 - MAH RABA जारी करने का दिनांक/ Date of Issue 0/07/2012 AHARASHTRA BANK OF MAH SHERABANK OF MAHARASHI SHE RAB / SHECeived ₹ , 10 , 000 .. 00 SHERABANK OF MAHARAS HARASHTRA BANK OF MAH SHERABANK OF MAHARAS HARASHTRA BANK OF MAH SHTRABANK OF MAHARAS SHERABANK OF MAHARAS HARASHTRA BANK OF MAH SHERABAT/KITOTI MANATATONAL CENTRE FOR RURAL SHERABANK OF MAMIRRASDEVENDRA PRAKASH SHAH DEVELOPMENT 4002966928+8 BANK OF MAH 4001266337TG BANK OF MAH SHANKARRAD KELSHIKAR RABANK OF MAMMRASNIRANJAN 400126612676 BANK OF MAH & OTHERSSHIRA BANK OF MAH TUKARAM SHINDE AHARASHTRA BANK OF MAH AHARASHTRA BANK OF MAH वर्ष / माह की अवधि के लिए months/years at the rate of 9 - 0000 as a deposit for 10 Years अवधि समाप्ति पर रकम ₹ / on maturity, Value ₹ 67 , 871 . 00 को देय /payable to SHTRABANK OF MAHARASHTRA B SHTRABANK OF MAHARASHTRA BAR BANK OF MAHABASHTRA BANK OF MAHARASHTRA BANK OF MA के अंतर्गत दिनांक को नामांकन पंजीकत **BHIST AHARASH** Nomination Registered on date BANK OF MAHARASHTRA BANK OF MAH

GENERAL RULES APPLICABLE TO ALL TERM DEPOSIT SCHEMES

1. The deposit can be made individually or jointly in the names of two or more persons and be made repayable to any one or more of them or survivor/s or jointly all of them. Deposit can be made in the name of minor by the his / her guardian. 2. Minimum Deposit of ₹ 100/- and its multiple are accepted. 3. The deposit receipt are not transferable. 4. Notice of due date will be recorded upon the receipt to enable the depositors either to receive payment of deposit with interest or arrange for the renewal of the deposit. 5. Interest will cease to accrue at the expiration of the term expressed in the body of the receipt. 6. No interest will be paid on the deposit after the date of maturity unless it is renewed. 7. Deposit receipts tendered for renewal or repayment should be properly discharged. Discharge on required revenue stamp (at present ₹ 1/-) is necessary in case of repayment of deposits exceeding ₹ 500/-. 8. The amount of deposit receipt cannot be withdrawn in separate suchs by cheque or draft. 9. Deposit due on a Bank Holiday is payable on the next working day. 10. A request for premature payment will be onsidered in genuine cases only and the Bank shall be entitled to determine its own penal interest rate. At present in such cases out of the interest rates viz. rate at the time of keeping deposit and rate at the time of premature payment, the lower of the two would be payable for the period for which the deposit remained with the Bank. 11. The Bank reserves the right to change the rules from time to time without prior notice to the depositors and such revised rules shall be applicable from the date they are made effective. 12. TDS will be deducted as per rules unless Form 15H/15G is submitted.

	INTLS	032	9							1								ewal / Payment Instructions
	DATE	7.7.2	0478 1		91, 11					- 1		1, 4		3 1 3			for	renew.₹ period ofcredit int SB A/c No.
ERIOD	TO	72	1	jarh.	in er		\$				10	711	10	4-9	A. 7.4	3	2. Pl./	credit the proceeds to my
REST	FROM	022	-19				. 72		ء ۔	. "							the second	A/C No
INTE	PS.	7	83		Ky	1			1					- 1	; <i>O</i> ,		- 1 1 1 N	REVENUE
NI AMOUNT	h	. 20.	1.24			- 2	2	,		<i>f</i> .							Sig	STAMP ₹ 1/- nature of Depositor/s